

1.20 लाख रु. के नकली नोट बरामद, 3 गिरफ्तार, 2 ले 6 हजार नकली देते थे

Shriganganagar News - सूरतगढ़। सिटी पुलिस ने नकली नोट छापकर चलाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर...

Hindi News

Rajasthan

Shriganganagar

Sardargarh News rajasthan news 120 lakhs recovered fake notes 3 arrested 2 le 6 thousand fake fake

Feb 17, 2019, 05:35 AM IST



सूरतगढ़। सिटी पुलिस ने नकली नोट छापकर चलाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर 2 हजार रुपए के 60 नकली नोट, नोट छापने का रंगीन प्रिंटर, महात्मागांधी के चित्र वाली मोहर, नंबर लगाने वाली मशीन विशेष प्रकार की स्याही और सफेद कागज आदि सामान बरामद कर जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों में अश्वनी कुमार (28) पुत्र प्रसादगिरी निवासी वार्ड नंबर 6, मोहम्मद हुसैन(36) पुत्र नूरहसन निवासी गांव सरदारगढ़ हाल सूरतगढ़ व अंग्रेजसिंह (34) पुत्र हंसासिंह निवासी वार्ड नंबर-32 अबोहर का निवासी है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ 498 क, ख व ग के तहत केस दर्ज किए हैं। सीआई निकेतकुमार पारीक ने बताया कि कुछ दिन पूर्व बाजार में 2000 रुपए के नकली नोट के चलन की सूचना मिली थी। एसपी हेमंत शर्मा ने सीआई पारीक के नेतृत्व में एसआई लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल इंद्राज, टिकमचंद, देवीलाल, हनुमान व नागरमल की टीम बनाई। टीम ने कार्यवाही करते हुए अश्वनी कुमार व मोहम्मद हुसैन को पकड़ दो हजार के 20 नकली नोट बरामद किए। आरोपी हुसैन से पूछताछ व निशानदेही के आधार पर अंग्रेज सिंह को गिरफ्तार कर उससे 2 हजार रुपए के 10 नोट बरामद किए।

हरियाणा के महेंद्रगढ़ में नकली नोट छापने वाला मुख्य सरगना फरार: बाद में आरोपी अंग्रेजसिंह ने पूछताछ में बताया कि वह सुरजीतकुमार पुत्र केसराराम चमार निवासी हूडीना जिला महेंद्रगढ़ (हरियाणा) के घर से नकली नोट लाया था। अंग्रेजसिंह ने पुलिस को यह भी जानकारी दी कि सुरजीत अपने घर में नकली नोट बनाता है। पुलिस टीम ने सुरजीत के घर दबिश दी तो वह घर पर नहीं मिला। घर की तलाशी लेने पर उसके घर से दो हजार रुपए के 20 नोट नकली बरामद हुए। घर में नोट छापने की सामग्री व उपकरण बरामद हुए। जांच व पूछताछ में आरोपी अश्वनी के घर से 20 हजार रुपए के नकली नोट बरामद हुए। ये सभी नकली नोट 2000-2000 रुपए के हैं। सीआई ने बताया कि फरार हुए आरोपी सुरजीत को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम हरियाणा गई हुई है।

सरगना सुरजीत से दो हजार में मिलते थे 6000 नकली: पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि मुख्य सरगना सुरजीतकुमार अपने महेंद्रगढ़ स्थित घर पर नकली नोट प्रिंट करता था। अश्वनी, मोहम्मद हुसैन और अंग्रेजसिंह तीनों उसी से नकली नोट लाकर बाजार में चलाते थे। सुरजीत असली दो हजार लेकर दो हजार के तीन नकली नोट देता था। तीनों काफी समय से यह धंधा कर रहे थे।

Source: <https://www.bhaskar.com/rajasthan/shriganganagar/news/rajasthan-news-120-lakhs-recovered-fake-notes-3-arrested-2-le-6-thousand-fake-fake-053554-3923925.html>